



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-12.08.2022

**थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम ने चोरी के 01 अदद ट्रैक्टर के साथ
वांछित अभियुक्त सूरज यादव को किया गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से चुराये
गये वाहन बिक्री के, शेष 2000/- रु. नकद बरामद ।**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के लूट/चोरी की घटनाओं के अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के पर्यवेक्षण में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 138/2022 धारा 379 भादवि से का सफल अनावरण करते हुए वांछित अभियुक्त सूरज यादव पुत्र जयगोविंद यादव नि0 तियरी थाना इलिया जिला चंदौली को दिनांक 11.08.2022 समय 23.30 बजे बुद्ध बिहार कालोनी चांदमारी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 2000 रूपये नगद बरामद हुआ तथा अभियुक्त की निशांदाही पर चोरी का एक अदद ट्रैक्टर बरामद किया गया। जिसके संबंध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर में मु0अ0सं0 245/22 धारा 411/413 भा.द.वि पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

सूरज यादव पुत्र जयगोविंद यादव नि0 तियरी थाना इलिया जिला चंदौली उम्र करीब 19 वर्ष।

घटना का विवरण- दिनांक 01.05.2022 को वादी मुकदमा श्री राजेश कुमार जायसवाल उर्फ पप्पु s/0 स्व0 शिवनाथ जायसवाल निवासी छोटालालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी द्वारा लिखित प्रा.पत्र दिया गया कि ट्रैक्टर पावर ट्रैक सं0 UP 65 BW 8574 जो मैंने घर के दरवाजे पर खड़ा किया था, दिनांक 30.4.2022 को रात को लगभग 2 से 3 के बीच अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा चोरी कर लिया गया है जिसके आधार पर थाना लालपुर पाण्डेयपुर में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 सच्चिदानंद सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

विवरण पूछताछ-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपने साथी विकास गौड़ पुत्र जिऊत गौड़ निवासी कोन्डारी थाना मरदह जनपद गाजीपुर के साथ मिलकर वाराणसी एवं अन्य जनपदों में ट्रैक्टर की चोरी किया करते हैं और उसे ले जाकर बिहार में अच्छा ग्राहक खोज कर बेच देते हैं। हम दोनों लोगो ने मिलकर आजमगढ रोड पर इण्डियन पेट्रोल पम्प के सामने से 01 पावर ट्रैक ट्रैक्टर व ट्राली सहित चुराये थे जिसे ले जाकर हम दोनों ने बिहार के कैमूर जिले में एक व्यक्ति को 80 हजार रु0 में बेचा था मेरे हिस्से में 40000/- रु. आये थे और मैं अपना खर्च चला रहा था उसी में से 2000/- रु. बचा है। हम दोनों ने फरवरी के शुरुआत में ही सामने घाट थाना लंका से एक पावर ट्रैक ट्रैक्टर चुराये थे जिसे बेचने के लिए हम दोनों मिलकर शेरु खां के घर पतेरी

थाना चांद जिला कैमूर बिहार मे छिपा कर रखा था। दिनांक 10.08.22 को मैं और विकास ट्रैक्टर चोरी करने के लिए आए थे परन्तु एक आदमी आ गया और हम लोगो से पूछताछ करने लगा इसीलिए हम चोरी नहीं कर पाये। विकास वापस कैमूर चला गया और मैं यही रुक गया था।

बरामदगी का विवरण-

- 1- थाना लंका से चोरी गया एक अदद ट्रैक्टर पावर ट्रैक UP 65 BW 8574 इ0नं0 E 3289836 , चे0न0 T 053261394 व रंग नीला बरामद हुआ।
- 2- मु0अ0सं0 138/ 2022 से संबंधित चोरी गये वाहन का विक्री का 2000 रूपये नगद बरामद हुआ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 सतीश कुमार यादव थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी
2. उ0नि0 मनीष पाल थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी
3. उ0नि0 सच्चिदानंद सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी
4. हे0का0 सुरेन्द्र कुमार मौर्या थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी
5. का0 चन्द्रेश कुमार थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी
6. का0 मनीष तिवारी थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी
7. का0 उपेन्द्र बहादुर सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

